

## जनपद बाराबंकी

दिनांक 02.10.2021

थाना सुबेहा पुलिस द्वारा दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से विभिन्न स्थानों से चोरी किये गये छः मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटर साइकिल बरामद-

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री यमुना प्रसाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण रखने के लिए सक्रिय अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री मनोज कुमार पाण्डेय के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी हैदरगढ़ श्री नवीन कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सुबेहा के नेतृत्व में दिनांक 01.10.2021 को थाना सुबेहा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण 1. मोहित शर्मा उर्फ श्रीकान्त शर्मा पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी ग्राम रेवतीदास मजरे मवैया रहमतगढ़ थाना शुक्ल बाजार जनपद अमेठी 2. राजन शुक्ला पुत्र अमेन्द्र शुक्ला उर्फ दददन शुक्ल निवासी ग्राम शुक्ल बाजार मजरे मवैया रहमतगढ़ थाना शुक्लबाजार जनपद अमेठी को ग्राम अनियारी थाना सुबेहा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के पास से चोरी के छः अदद एन्ड्राइड मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटर साइकिल बरामद किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना सुबेहा पर मु0अ0सं0-184/2021 धारा 41/411 भादवि पंजीकृत किया गया।

पूछताछ से पता चला कि ये सभी मोबाइल, इन दोनों ने मिलकर विभिन्न स्थानों से चोरी किये हैं पर इनको स्थान का नाम याद नहीं हैं और इनके द्वारा चोरी करने में उक्त मोटर साइकिल का प्रयोग किया जाता था।

### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. मोहित शर्मा उर्फ श्रीकान्त शर्मा पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी ग्राम रेवतीदास मजरे मवैया रहमतगढ़ थाना शुक्ल बाजार जनपद अमेठी
2. राजन शुक्ला पुत्र अमेन्द्र शुक्ला उर्फ दददन शुक्ल निवासी ग्राम शुक्ल बाजार मजरे मवैया रहमतगढ़ थाना शुक्लबाजार जनपद अमेठी

### बरामदगी-

1. तीन अदद वीवो मोबाइल फोन
2. एक अदद ओप्पो मोबाइल फोन
3. एक अदद सैमसंग मोबाइल फोन
4. एक अदद एमआई मोबाइल फोन
5. एक अदद एक्सट्रीम मोटर साइकिल बिना नम्बर

**पुलिस टीम-**

1. प्रभारी निरीक्षक सुबेहा श्री ओमवीर सिंह चौहान जनपद बाराबंकी।
2. उ०नि० श्री प्रमेन्द्र प्रताप सिंह थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी।
3. उ०नि० श्री ध्यानेन्द्र प्रताप सिंह थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी।
4. का० विकास सिंह, का० राहुल यादव थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी।
5. का० सुमित कुमार थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी।